

आई.टी.एन.एस.-8
I.T.N.S.-8

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154/155 के अधीन सूचना
NOTICE UNDER SECTION 154/155 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961

स्थायी लेखा संख्या
Permanent Account No. M-365


आयकर कार्यालय
Income-Tax Office

सेवा में/To M/s. Modi Properties & Investments (P) Ltd
दिनांक/Date 7/4/2000

धारा 110 के अधीन कर निर्धारण वर्ष _____ के लिए
तारीख _____ को दिये गये आदेश में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि आयकर
अधिनियम, 1961 की धारा 154/155 के आशय के अनुसार रिकार्ड में स्पष्ट त्रुटि है। रिकार्ड
में इस त्रुटि-सुधार के फलस्वरूप, नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार कर निर्धारण में वृद्धि/धन
वापसी में कमी तथा आपके कर-दायित्व में वृद्धि होगी। यदि आप कोई सुनवाई चाहते हैं
तो कृपया स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हमारे कार्यालय में तारीख _____
को प्रातः/अपराहन _____ बजे उपस्थित हो जाये। यदि आप इस सूचना का लिखित
उत्तर देना चाहते हैं और स्वयं सुनवाई नहीं चाहते तो कृपया ऐसी व्यवस्था करें कि आपका
उत्तर उपर्युक्त तारीख को या उससे पूर्व निश्चित रूप से मेरे पास पहुंच जाये।

Order under Section 143(1) for the assessment year 99-2000
made on 16/2/2000 requires to be amended as there is a mistake
apparent from the record within the meaning of section 154/155 of the
Income-Tax Act, 1961. The rectification of the mistake, as per details
given below will have the effect of enhancing the assessment reducing
the refund/increasing your liability and if you wish to be heard you are
requested to appear in person or by an authorised representative in my
office on 24/4/2000 at 3-00 A.M./P.M. If however, you intend
sending a written reply to this notice and do not wish to be heard in person,
you are requested to ensure that your reply reaches me on or before the
date mentioned above.

मुहर
SEAL



डि. वी. एस. एस. वासकरा राव
Y. V. वासकरा अधिकारी A RAO
INCOME TAX OFFICER
Deputy Commissioner

प्रस्तावित त्रुटि-सुधार का स्वरूप :
Nature of mistake proposed to be rectified : Income Tax, Circle-7 (5)
Income tax of Rs. 6000/- to be disallowed ; shown as outstanding
amounts in the absence of any
proof of Payment

Received
20/4/2000
gk

Income-Tax Department

INTIMATION UNDER SECTION 143 (1)(a) OF THE I.T. ACT. 1961

P.A.N./G.I.R. M-365/007(5) A.O. Code APRC 03705 Ack. No. 75784
 NAME M/s. Modi Properties & Investments (P) Ltd Asst. Year 99-2000 D & CR No. TITA/126/P68
 ADDRESS 5-4-187/3 & 4 Status CO 99-2000
Soham Mansions Due Date of Return 31/12/99
M.G. Road Return filed on 30/12/99

Dear Sir/Madam, Sec 1 bad

Please refer to your Return of Income for the above Assessment Year. The total income-tax and interest payable thereon/refund due to you and the interest thereon have been determined in accordance with Section 143 (1)(a) of the I.T. Act, 1961 as under.

INCOME	Rs.	TAXES	Rs.
Returned total income/loss <u>MAT</u>	<u>16400</u>	Tax on total income	<u>5740</u>
Adjustments U/s 143 (1)(a)		Less : Rebate U/s 88/88A	
<u>MAT</u> TOTAL INCOME/LOSS after adjustments U/s 143 (1)(a)	<u>16400</u>	Balance	
Net Agrl. Income		Surcharge	
Other income included for Rate purpose		Add. tax U/s 143 (1A)	
Components of Total Income		TOTAL TAX	<u>5740</u>
Chargeable at Spl. rate of tax		INTEREST :	
Section Amount Rate		U/s 234A	
Rs.		U/s 234B	
		U/s 234C	
		Total tax and interest payable	<u>5740</u>

Prepaid Taxes

TDS & Tax Collected at Source	<u>75852</u>	LESS : Prepaid Taxes	<u>75852</u>
Advance-Tax		Amount payable/Refundable	<u>70112</u>
Self Asst. Tax & Int.		Interest payable to Assessee	<u>8408</u>
Total Prepaid Taxes	<u>75852</u>	TOTAL	
		Net payable/Refundable	<u>78520</u>

Challan for Rs.....is enclosed.
 Refund voucher bearing Book No A.010886
 Voucher No B.1.0885.85
 for Rs 78520/- dated 31/3/2000
 is enclosed.

(Signature)
 वं. वी. एन. एम. रामकरा राव
 Y. V. S. S. BHASKAR RAO
 Deputy Commissioner
 आयकर, सर्कल-7 (5)
 Income Tax, Circle-7 (5)
 हैदराबाद/Hyderabad.

Date : 16/3/2000 Note:- credit for duplicate TDS certificates to the extent of Rs 39845/- is not allowed in the absence of any indemnity bond.
 Place : HYDERABAD

- NOTE :
1. In case you are not satisfied with the additions/deductions made, you may move an application before your Assessing Officer U/s 154.
 2. This intimation is deemed to be a notice of demand U/s 156 in terms of Sec. 143 (1) of the I. T. Act, 1961. The amount is required to be paid within 30 days of the service of this intimation.
 3. If you do not pay the amount within the period specified above :
 - a) You shall be liable to pay simple interest U/s 220(2) of the I.T. Act @ 1.5% for every month or part of month of default.
 - b) A penalty may be imposed U/s 221 of the I.T. Act, which may be as much as the amount of tax in arrears.
 - c) Proceedings in accordance with Sec. 222 to 229, 241 and 232 of the I.T. Act shall be taken for recovery of the amount due.

calculation of tax

द्वितीय पर्ण (बैंक द्वारा क्षेत्रीय सेवा अधिकारी को भेजने के लिए)
SECONDFOIL (To be sent by Bank to the Z. A. O.)

बुक नं.
Book No. **A 010886**

020 निगम का
Corporation Tax

Voucher No. **088585**
1,000/- रु. और अधिक की (रकम लि. अथवा) for amounts Rs. 1,000/- and above

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
आयकर प्रतिदाय अधिनियम
INCOME TAX REFUND ORDER

ORDER FOR REFUND OF TAX

यह जारी करने की तारीख के लिए प्राप्त के अन्तर्गत **Below** **Seventy eight thousand four hundred**

सेवा में To **भारसाधक अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India**
Officer - in - charge of भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
भारतीय स्टेट बैंक की उप-शाखा Subsidiary of the State Bank of India HYDERABAD.

स्थायी लेखा संख्या / Permanent Account Number **M-365 (Deans)**

निर्धारण वर्ष (वर्षों) / Assessment Year (s) **99-2000**

रुपया श्री

रु. की राशि प्रतिदाय के कारण उनको दे दीजिए।
Please pay to **M/s. Modi Properties & Investments Pvt. Ltd.**

the sum of Rupees **78520/- Seventy eight thousand four hundred** (In figures)

on account of refund due to him. **Seventy eight thousand four hundred** (In words)

स्थान **HYDERABAD.**

Place **31/3/2000**

Date **Y.V. RAO**

मुगतान प्राप्त किया Received payment

For **Modi Properties & Investments Pvt. Ltd.**

दावेदार के हस्ताक्षर Claimant's Signature **Modi Properties & Investments Pvt. Ltd.**

तारीख **22-4-2000**

जांच की Examined.

लेखापाल Accountant

अर्थ. नि. सेक I. T. Sec.

Y.V. RAO
Deputy Commissioner
Signature **Income Tax Officer**

Income Tax Circle-1 (B) **Hyderabad.**

IT 157
Rupees **78520/-** (In figures) only

भारसाधक अधिकारी Officer - in - charge

भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

भारतीय स्टेट बैंक की उप-शाखा Subsidiary of the State Bank of India

तारीख **19**

Date **19**

* वर्गीकरण के लिए कृपया पृष्ठ भाग देखिये।
For Classification, Please see reverse.